

**डी.पी.एन.के लिए सुपर्दगी लेने का पत्र (टेक डेलिवरी लेटर) TAKE DELIVERY LETTER TO DPN
(खुदरा उधार योजनाओं के तहत वैयक्तिक ऋण के लिए) (For Personal Loans under Retail Lending Schemes)**

प्रेषक/From :	स्थान/Place:
	दिनांक/Date:
	सेवा में /To प्रबंधक/The Manager केनरा बैंक Canara Bank

प्रिय महोदय/Dear Sir,

मेरे/हमारे द्वारा विधिवत् रूप से आपके नाम पर निष्पादित रु. का दिनांक..... का मांग पर वचन पत्र जिसके लिए प्रतिफल मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त किया गया, की सुपर्दगी लेने हेतु मैं /हम आपसे अनुरोध करता हूँ / करते हैं।

I/We request you to take delivery of On Demand Promissory Note dated for Rs..... duly executed by me/us in your favour for which consideration has been received by me/us.

हम में से किसी को कथित राशि वितरित करने के लिए मैं / हम आपको प्राधिकृत करता/ते हूँ और यों किया गया भुगतान, आप द्वारा संगत समझे गये किसी भी समय पूरी ऋण राशि का भुगतान करने की मांग करने के आपके हक के प्रति बिना किसी पूर्व धारणा के हम सब पर बाध्यकारी होगा, कथित अग्रिम का हमारे द्वारा भुगतान बैंक के प्रति हमारी देयता को प्रगत्यात्मक रूप से इस प्रकार कम करता जाता है :

..... मंजूरी शर्तों के मुताबिक की सम मासिक किशतों में ऋण चुकता करने के लिए मैं / हम एतद्वारा सहमत होता/ते हूँ / हैं।

ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार संशोधित सम मासिक किशतों में ऋण चुकता करने के लिए मैं / हम एतद्वारा सहमत होता/ते हूँ / हैं।

I/we authorise you to disburse the amount to any of us and the payment so made shall be binding on all of us without prejudice to your right to demand payment of the entire loan at any time you may deem fit, the repayment by us of the said advance shall be by progressively reducing my/our liability to the bank as follows:

..... I/we hereby agree to repay the loan in equated monthly installment of Rs..... for..... months as per the sanction terms and conditions.

I/we also agree to repay the loan in the revised equated monthly installments due to the change of rate of interest as decided by the bank from time to time.

मैं / हम एतद्वारा.....% प्रति वर्ष की न्यूनतम दर से या मासिक / त्रैमासिक / अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवर्धित, समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित की गई इस प्रकार की अन्य उच्चतर दर पर ब्याज अदा करने के लिए विशिष्ट रूप से सहमत होता हूँ / होते हैं और इस प्रकार का ब्याज खाते में बनी शेष जमा राशि पर परिकलित एवं प्रभारित करते हुए खाता में जमा किया जाना है और यह प्रत्येक माह में / तिमाही में / अर्ध वर्ष में देय होगी और यदि ब्याज अदा नहीं किया जाता है तो वह इस प्रकार की शेष राशि और इस प्रकार की उत्तरवर्ती शेष राशियों पर खाते में बनी मूल बकाया राशि के साथ चक्रवर्धित हो जाएगा।

I/We hereby specifically agree/s to pay interest at a maximum rate of.....% p.a. or such other higher rate decided by the bank from time to time, compounded monthly / quarterly / half yearly and such interest shall be calculated and charged on the balance in account and be debited to the account and payable every month/quarter/half year if the interest is not paid, the same shall become compounded with the principal balance outstanding in the account, on such balance and on such successive balances.

मैं / हम अतिदेय राशि को मूल बकाया राशि के साथ चक्रवर्धित करने से पूर्व नोटिस / जानकारी में द्रष्ट देता हूँ / देते हैं।

I/We hereby waive notice / information before compounding the overdue amount along with the principal balance outstanding.

मैं/हम इस बात पर विशिष्ट रूप से सहमत होता हूँ / होते हैं कि ऋण मंजूर करते समय जिस दर पर मैं / हम सहमत थे, उस दर में किसी कटौती के लिए मैं / हम हकदार नहीं होगा / होंगे और मैं / हम समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर में किसी ऊर्ध्वमुखी संशोधन अदा करने के लिए आबद्ध हूँ / हैं।

I/We hereby specifically agree that I/we am/are not entitled to any reduction in the rate of interest agreed by me / us at the time of sanction of the loan and also that I/we am/are bound to pay any upward revision in the rate of interest made by the Bank from time to time.

मुझे / हमें ज्ञात है कि यदि उक्त शर्तों पर हुई सहमति के अनुसार किसी भी एक किस्त के भुगतान या खातों के नियमितीकरण या समाशोधन में मेरे / हमारे द्वारा कोई चूक होती है तो समय-समय पर खातों में प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर से अधिक, प्रति वर्ष प्रतिशत की दंडात्मक दर से ब्याज इस प्रकार की चूक की तारीख से खातों के नियमितीकरण / समाशोधन की तारीख तक, जैसा भी मामला हो, अग्रिम पर प्रभारित किया जाएगा।

In the event of my/our default in payment of any one instalment or in regularising or in clearing the account as per terms agreed upon, I/we know that an interest at a penal rate of per cent per annum above the rate of interest that is charged in the account from time to time is leviable on the advance from the date of such default till regularising / clearing the account, as the case may be.

मैं / हम विशिष्ट रूप से सहमत हूँ / है कि बैंक के प्रधान कार्यालय के निदेशानुसार समय-समय पर वृद्धि सहित ब्याज में परिवर्तन की नोटिस में छूट देता हूँ / देते हैं। मैं / हम आगे सहमत होता हूँ/होते हैं कि बैंक के परिसर के सूचनाफलक पर प्रदर्शित ब्याज की दर में इस प्रकार के परिवर्तन मेरे / हमारे लिए पर्याप्त होंगे और मैं / हम बैंक के सूचना फलक पर समय-समय पर प्रदर्शित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता हूँ / होते हैं जब तक कि सभी देय राशियां पूर्णतः समाशोधित नहीं हो जाती हैं।

I/We specifically agree that I/we waive notice of variation of interest including enhancement from time to time as per the directions of the Head Office of the Bank. I/We further agree that such variation in the rate of interest notified in the Notice Board of the Bank premises shall be sufficient notice to me / us that I / we agree to pay interest at the rate notified in the Notice Board of the Bank from time to time until all dues are cleared in full.

मैं/हम एतद्वारा वचन देता हूँ / देते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए राशि की गई है, केवल उसी के लिए इस राशि का उपयोग करूंगा / करेंगे और जिस उद्देश्य के लिए मंजूरी हूँ गई है, उसके अलावा राशि या उसके किसी हिस्से का उपयोग किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं करूंगा / करेंगे। आगे, मैं/हम सहमत होता हूँ / होते हैं कि यदि बैंक को संदेह होता है या उसे संदेह होने का कोई कारण हो कि मैंने/ हमने इस वचन का उल्लंघन किया है या मैं / हम इसका उल्लंघन करता हूँ / करते हैं तो यहां निहित या किसी अन्य समझौते में निहित किसी बात के विपरित कुछ होते हुए भी बैंक तत्काल उक्त ऋण की राशि या उसका कोई भाग वापस ले सकता है।

I/We hereby undertake that I / we shall use the amount only for the purpose for which it is sanctioned and shall not use the amount or any part thereof for any purpose other than for which it is sanctioned. Further, I/we agree that if the Bank suspects or has reason to believe that I/we have violated or am/are violating this undertaking, the Bank may recall the loan amount or any part thereof at once notwithstanding anything to the contrary contained herein or in any other agreement.

मुझसे / हमसे आगे कोई संदर्भ या सहमति लिए बिना बैंक को अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन बैंक के पास मेरे / हमारे किसी खाते / खातों से किस्त / ब्याज नामे डालने का अधिकार होगा परंतु वह इसके लिए बाध्य नहीं है। हम संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से वचन देते हैं कि उपर्युक्तानुसार समय-समय पर बैंक द्वारा खातों में नामे डालने के लिए उक्त खातों से पर्याप्त निधियां उपलब्ध करायेंगे।

The Bank shall have the right, but not obliged, to debit the instalment/interest/to any of my/our account/s with the Bank at its absolute discretion without any further reference to or concurrence from me/us. We jointly and severally undertake to make available at all times sufficient funds to enable the Bank to debit the accounts as aforesaid from time to time.

मैं/हम आगे आपसे यह नोट करने का अनुरोध करते हैं कि बैंक द्वारा जैसे भी और जब भी मांगे जाने पर मेरे / हमारे द्वारा खातों को सही तरह से बनाये रखने में चूक होने पर आप मेरे / हममें से किसी एक या अधिक के द्वारा मौखिक या लिखित आवेदन पर मेरे / हममें से किसी एक या अधिक से दायित्व पर या खाते के संबंध में आपके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के किसी भी उपचार पर बिना पूर्वाग्रह के मुझे या हमें भुगतान के लिए समय देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

I/We further request you to note that on my/our failure to put the account in order as and when demanded by the Bank, you shall be at liberty to give time for payment to me/any one or more of us, on verbal or written application without prejudice to the liability on myself/ anyone or more of us, or to any one of the remedies of securities you hold in respect of the account.

आगे, हम ऋण के प्रति भुगतान करने या इस ऋण या इसके किसी हिस्से की स्वीकार करने के मामले में बचत सीमा के विशिष्ट प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा जैसे और जब भी कहा जाता है तो समय-समय पर ऋण खाते के लिए और ऋण की अभिस्वीकृति के प्रयोजनार्थ मैं / हम हममें से किसी एक या अधिक की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं, तदनुसार, मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि हममें से किसी एक या अधिक द्वारा किया गया भुगतान और अभिस्वीकृति हम सभी पर संयुक्त रूप से और या अलग-अलग रूप से बाध्यकारी होगी। हममें से किसी एक या अधिक कि द्वारा किया गया कथित भुगतान और दी गई अभिस्वीकृति परिसीमा कानून के प्रयोजनार्थ हम सबके प्रति संयुक्त रूप से और / या अलग-अलग रूप से परिसीमा का बचाव करेंगी।

Further, in the matter of making payments towards this debt or acknowledging this debt or any part thereof as and when called upon by the Bank to do so for specific purpose of saving limitation, I / we authorise any one or more of us to act as agent on behalf of any one or more of us for the purpose of making payment to the loan account and giving acknowledgement of debt from time to time. Accordingly, I/we declare that the payment or acknowledgement made or given by any one or more of us shall be binding on all of us jointly and/or severally and the said payment and acknowledgement so made or given by one or more of us shall save limitation against all of us jointly and/or severally for the purpose of law of limitation.

मैं/हम एतद्वारा बैंक को बैंक के नियमानुसार किस्त, ब्याज, प्रभार, लागत और किए गए व्यय की राशि आगे मुझे / हमें जानकारी दिए बिना मेरे / हमारे बचत खाता / चालू खाता संख्या.....से किसी भी समय नामे डालने के लिए प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और मेरे / हमारे खातों में पर्याप्त शेष रखने का वचन देता हूँ / देते हैं।

I/We hereby authorise the Bank to debit my/our SB / Current Account No.....at any time with the amount of instalment, interest, charges, costs, expenses incurred as per the rules of the bank without any further reference to me/us and undertake to provide sufficient balance in my / our accounts.

मैं/हम वचन देता हूँ / देते हैं कि बैंक को उसके पूर्णविवेक पर मेरे / हमारे / सह-आभारी / गारंटीकर्ता / बंधककर्ता द्वारा किए गए भुगतानों को विनियोग करने का अधिकार होगा।

I/We undertake that the Bank shall have the right to appropriate the payments received from the me/us/Co-obligant/Guarantor/Mortgagor at its sole discretion.

मैं/हम वचन देता हूँ / देते हैं कि मांगे जाने पर मासिक किस्तों के लिए बैंक को उत्तर दिनांकित चेक देने को मैं / हम सहमत करता हूँ / है और मैं / हम गारंटी देता हूँ / देते हैं कि प्रथम प्रस्तुति में भी चेक स्वीकारे जाएंगे, किसी भी कारण से किसी भी चेक को प्रस्तुत न किए जाने से मासिक किस्त या अन्य कोई राशि का भुगतान करने का मेरा / हमारा दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

On demand I/we agree to deliver to the Bank Post-dated Cheques for the monthly instalments and I/we warrant that the cheques will be honoured on first presentation. Any non-presentation of a cheque due to any reason will not affect my/our liability to pay the monthly instalments or any other sum.

आगे, मैं / हम यदि बैंक को आवश्यकता होने पर चेक को तत्काल बदलने के लिए सहमत हूँ / हैं। उधारकर्ता को यह हक नहीं होगा कि वह भुगतान के लिए किसी चेक को प्रस्तुत करने के संबंध में बैंक से अनुरोध करें और यदि मैं / हम ऐसा करता हूँ / करते हैं इसके बावजूद बैंक भुगतान के लिए उस चेक को प्रस्तुत करने का हकदार होगा और चेक के स्वीकार न होने की स्थिति में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अध्याय XVII के तहत प्रावधान लागू होंगे।

Further, I/we agree to forthwith replace the cheques if required by the Bank. The borrower shall not be entitled to call upon the Bank from presenting any cheque for payment and if I/we do so, the Bank shall nevertheless be entitled to present the cheque for payment and in the event of dishonour, the provisions under Chapter XVII of the NI Act, 1881, shall apply.

यदि मैं / हम नियत तिथि से तीन माह के लिए किसी किस्त का भुगतान करने में चूक करता हूँ / करते हैं या नियत तिथि के बाद तीन माह के लिए ब्याज अदा करने में चूक करता हूँ / करते हैं या मेरे / हमारे द्वारा इन प्रस्तुतियों / किसी अन्य दस्तावेजों के निष्पादन या अनुपालन में कोई उल्लंघन किए जाने की स्थिति में बैंक अग्रिम को वापस लेने और या प्रतिभूति को प्रवर्तित करने का हकदार होगा। मैं / हम सहमत हैं कि मेरे / हमारे द्वारा कोई चूक किए जाने की स्थिति में बैंक को मेरा / हमारा नाम और फोटो किसी दैनिक समाचार पत्र / पत्रों, पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित करने का अधिकार होगा।

The Bank will be entitled to recall the advances and / or enforce the security if I/we default in paying any instalments for three months from the due date or fail to pay interest for three months after due date or in the event of my/our committing any breach in the performance or observance of these presents / any other document. I/We agree that in the event of default on my/our part, the Bank shall have the right to publish my/our name/s and photograph in any one of the local news paper/s, magazines etc. इस समझौते के तहत बैंक को अपने विवेकाधिकार के अधीन समस्त राशि का भुगतान करने का और निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक या अधिक के घटने पर प्रतिभूति को प्रवर्तित करने का अधिकार होगा।

The Bank in its discretion shall have the right to demand the payments of all moneys under this agreement and enforce its security upon the happening of any one or more of the following events :

क/ a) यदि न्यायालय द्वारा मुझे / हमें दिवालिया या ऋण शोधन अक्षम करार दिया जाता है।

I am / we are declared as bankrupt or insolvent by a Court.

ख/ b) प्रतिभूत संपत्ति पर वैयक्तिक रूप से मुझ / हम पर किसी निष्पादन / कुर्की या प्रतिबंध प्रवर्तित या प्रभार लगाए जाने पर।

Any execution, attachment or restraint being enforced or levied on the property secured or on me/us personally.

ग/ c) प्रतिभूत संपत्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्राप्तकर्ता को नियुक्त किये जाने पर।

A receiver being appointed in respect of the secured property by any Court.

घ/ d) किसी भी स्थिति में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जमानत की कीमत में क्षति और मूल्यहास करने वाली घटना के घटित होने पर।

The occurrence of any circumstances which impairs, depreciates the value of security given by me/us.

ङ / e) किसी घटना या स्थिति के घटित होने पर जो बैंक के विचार में मेरे / हमारे द्वारा ऋण की चुकौती की क्षमता पर किसी भी प्रकार की प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव डालेगी या डाल सकने की संभावना रखती है।

The occurrence of any event or circumstances which in the opinion of the bank would or is likely to prejudicially or adversely affect in any manner my/our capacity to repay the loan.

च/ f) ऋण सुविधा या उसके किसी भाग को जिस प्रयोजनार्थ बैंक द्वारा मंजूर किया गया था, उस प्रयोजन के लिए उपयोग में चूक या लापरवाही होने पर।

Failure or neglect to utilize the credit facility or any part thereof for the purpose for which it was sanctioned by the Bank.

इस प्रश्न पर कि क्या उपर्युक्त में से कोई घटना घटित हुई है, ऋण मंजूर करते समय मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई जानकारी विवरण बाद में असत्य पाया जाता है तो बैंक का निर्णय मुझ / हम पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

Any of the information/details furnished by me/us to the bank at the time of sanctioning the loan is found to be false later. On the question whether any of the above events has happened, the decision of the Bank shall be conclusive and binding on me/us.

मेरे/हमारे नियोजक के कारोबार / नौकरी में मेरे / हमारे न बने रहने की स्थिति में चाहे सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या न्यासिक कार्रवाई या किसी अन्य कारण से और अन्य प्रकार से चाहे जो भी हो, आप अपने विवेक के अधीन मेरे/ हमारे नियोजक को विनियोग या क्षतिपूर्ति के लिए लिखने के हकदार होंगे - (i) कोई भी राशि जो वेतन, भत्ता, बोनस अन्य पारिश्रमिक या कोई भी भुगतान (चाहे अनुग्रहराशि या अन्यथा) और (ii) कोई भी राशि जो मेरे / हमारे खाते में जा हो और जो मेरे / हमारे द्वारा एकल रूप से या संयुक्त रूप से मेरे / हमारे नियोजकों के पास या आपके पास किसी शेष राशि की चुकौती के लिए हो जो उस समय मेरे / हमारे कथित ऋण खाते में इस प्रकार के भुगतान की तारीख तक लागू दरों पर ब्याज सहित मेरे / हमारे द्वारा देय हो, आपके द्वारा मेरे / हमारे नियोजकों द्वारा इस प्रकार किया गया विनियोग मुझ / हम पर और न्यायालय में तथा उसके बाहर मेरी / हमारी संपदा पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। जब तक भुगतान की तारीख तक लागू दरों पर संपूर्ण राशि आपके द्वारा मेरे / हमारे नियोजक या अन्यथा से वसूली के जरिए उगाही नहीं जाती, तब तक किसी भी स्थिति में मेरे / हमारे द्वारा संपूर्ण देय राशि का तत्काल भुगतान किये जाने का दायित्व वैध रहेगा।

In the event of my/our ceasing to be in the business / service of my / our employer whether by retirement, resignation, death or

by operation of law or for any other reason or cause whatsoever and howsoever you shall be entitled at your discretion to write to my/our employer appropriate and set off i) any amount which may be payable by/our employer to me / us whether by way of salary, allowance, bonus, other remuneration or any payment (whether ex-gratia or otherwise) whatsoever and ii) any amount that may be standing to the credit of any account which I/We may have with my/our employers or with you, either singly or jointly towards repayment of any balance that may be then remaining due by me/us in my/our said loan account together with interest thereon at the applicable rates upto the date of such payment, any such appropriation made by you or my/our employers shall be conclusive and binding on me/us and my/our estate both in and out of court. In any event my /our liability to make payment of the entire dues immediately shall remain valid till the entire amount with applicable interest as upto the date of payment has been realized by you whether by way of recovery from my/our employer or otherwise.

मैं/हम इस बात को समझता /समझते हूँ / हैं कि मुझे / हमें ऋणों / अग्रिमों / अन्य गैरनिधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान करने के संबंध में पूर्व शर्त के तौर पर केनरा बैंक को मेरे / हमारे द्वारा ली गई / ली जानेवाली ऋण सुविधा के संबंध में मेरे / हमारे द्वारा ग्रहण किए गए / किए जानेवाले दायित्व, मेरे / हमारे द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो, इसके निर्वहन के संबंध में मुझसे / हमसे संबद्ध जानकारी और आंकड़े बैंक द्वारा प्रकटीकरण किए जाने हेतु मेरी / हमारी सहमति की आवश्यकता है।

I/We, understand that as a pre-condition, relating to grant of the loans / advances / other non fund based credit facilities to me/us, the Canara Bank requires my/our consent for the disclosure by the bank of information and data relating to me/us, of the credit facility availed of/to be availed by me/us, obligations assumed / to be assumed, by me/us, in relation thereto and default, if any, committed by me/ us, in discharge thereof.

तदनुसार, मैं/हम एतद्द्वारा केनरा बैंक द्वारा सभी या इस प्रकार की अन्य किसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमत होता हूँ / होते हैं और सहमति देता हूँ / देते हैं :

Accordingly, I/we hereby agree and give consent for the disclosure by the Canara Bank of all or any such :

क/अ) मुझसे / हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़े

Information and data relating to me/us.

ग/ब) मेरे / हमारे द्वारा ली गई / ली जानेवाली किसी ऋण सुविधा से संबंधित सूचना या आंकड़े

the information or data relating to any credit facility availed of / to be availed by me / us and

ग/क) मेरे / हमारे द्वारा इस प्रकार के दायित्व के निर्वहन में मेरे / हमारे द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो

default, if any, committed by me /us, in discharge of my / our such obligation.

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि केनरा बैंक को प्रस्तुत की गई जानकारी और आंकड़े सत्य और सही हैं।

I/We declare that the information and data furnished by me/us to the Canara Bank are true and correct.

मैं / हम वचन देता हूँ / देते हैं कि I/We undertake that :

क/अ) द क्रेडिट इन्फरमेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी जिस प्रकार से भी उपर्युक्त समझे बैंक द्वारा प्रकटीकृत कथित सूचना और आंकड़ों का उपयोग और संसाधन कर सकती हैं : और

The Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other agency so authorised may use, process the said information and data disclosed by the Bank in the manner as deemed fit by them; and

ख/ब) द क्रेडिट इन्फरमेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेंसी संसाधन की गई सूचना और आंकड़े या उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद बैंक / वित्तीय संस्थानों और अन्य साख अनुदानकर्ता या पंजीकृत प्रयोगकर्ता, जैसा भी इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को इस संबंध में समेकन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

The Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other agency so authorised may furnish for consideration, the processed information and data or products thereof prepared by them, to banks / financial institutions and other credit granters or registered users, as may be specified by the Reserve Bank of India in this behalf.

आगे, मैं / हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मैं / हम सीआईबीआईएल (सिबिल) / अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई / प्रस्तुत की जानेवाली सूचना / विवरण के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं उठाएंगे और यह मुझ / हम पर बाध्यकारी होगा।

Further, I/We hereby confirm that I/We shall not raise any dispute in whatsoever manner regarding information/details furnished / to be furnished to CIBIL / other authorities and same is binding on me/us.

भवदीय/Yours faithfully,

उधारकर्ता/Borrower/s

वचन पत्र (प्रोनोट) / Pronote
(खुदरा उधार योजनाओं के तहत वैयक्तिक ऋणों के लिए)
(For Personal Loans under Retail Lending Schemes)

स्थान/Place: _____

रु./Rs. _____

दिनांक/Date: _____

मांगे जाने पर मैं / हम _____

संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से केनरा बैंक.....शाखा को या
 आदेश पर प्राप्त मूल्य के लिए _____ % प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर या मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक तौर पर
 चक्रवर्धित, अन्य किसी उच्चतर दरों पर कि जैसा समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित किया जाता है, रु.
 _____ अदा करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

ON demand I/we _____

Jointly and severally promise to pay CANARA Bank, _____ Branch


Or order the sum of Rupees _____

with interest @ _____ % pER ANNUM OR AT SUCH OTHER HIGHER RATES AS MAY BE REVISED BY THE BANK
 FROM TIME TO TIME, COMPOUNDED MONTHLY / QUARTERLY / HALF YEARLY FOR VALUE RECEIVED.

साक्षी/WITNESS:

1. _____

2. _____



कृ.पू.उ/P.T.O.

ऋण सं./Loan No _____

नाम और पता/Name & Address _____

रकम/Amount रु./Rs. _____ (रु पये/Rupees _____)

दिनांक/Dated _____

भुगतान प्राप्त / Received payment
कृते केनरा बैंक / For Canara Bank

वरिष्ठ प्रबंधक / प्रबंधक
Sr. Manager/Manager